

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 15 फ़रवरी 2023

### प्रश्न -1

भारत के साथ \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_ ने एक त्रिपक्षीय ढांचे के तहत रक्षा , ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप की घोषणा की है?

- A) न्यूज़ीलैंड
- B) फ़्रांस
- C) UAE
- D) B और C दोनों

**सही उत्तर: D**

भारत, फ़्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने एक त्रिपक्षीय ढांचे के तहत रक्षा , ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके फ़्रांस और UAE समकक्षों के बीच फोन पर बातचीत के दौरान योजना को अंतिम रूप दिया गया।

### प्रश्न-2

निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री केआर्थिक सलाहकार परिषद ( EAC-PM) के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) पूनम गुप्ता
- B) रतन वाटल
- C) संजीव सान्याल
- D) शमिका रवि

**सही उत्तर: D**

अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता शमिका रवि को प्रधानमंत्री केआर्थिक सलाहकार परिषद ( EAC-PM) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। शमिका रवि वर्तमान में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC में गवर्नेंस स्टडीज प्रोग्राम की अनिवासी सीनियर फेलो हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 15 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-3

यूरोपीय संघ (EU) के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने 'व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद' के तहत तीन कार्य समूहों के गठन की घोषणा की है?

- A) चीन
- B) भारत
- C) पाकिस्तान
- D) UAE

**सही उत्तर: B**

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने 'व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद' के तहत तीन कार्य समूहों के गठन की घोषणा की है , जिसे व्यापार ब्लॉक के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए स्थापित किया गया था। परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार होंगी , जिसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच बारी-बारी से आयोजन किया जाएगा।

### प्रश्न-4

सीमा पार UPI भुगतान के लिए समर्थन शुरू करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म है?

- A) भारतपे
- B) पेटीएम
- C) फ़ोनपे
- D) रेजरपे

**सही उत्तर: C**

फोनपे ने हाल ही में 'UPI इंटरनेशनल' भुगतान के लिए समर्थन शुरू किया है। यह सुविधा विदेश यात्रा करने वाले भारतीय उपयोगकर्ताओं को UPIका उपयोग करके विदेशी व्यापारियों को भुगतान करने की अनुमति देगी। वर्तमान लॉन्च संयुक्त अरब अमीरात , सिंगापुर, मॉरीशस, नेपाल और भूटान में अंतरराष्ट्रीय व्यापारी आउटलेट का समर्थन करता है जिनके पास स्थानीय क्यूआर कोड हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 15 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-5

निम्नलिखित में से किसने हरुनइंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 जीता है?

- A) एन.एस. राघवन
- B) नंदन नीलेकणि
- C) रिशद प्रेमजी
- D) वी.पी. नंदकुमार

**सही उत्तर: D**

वी.पी. नंदकुमार, प्रबंध निदेशक और CEO, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ने व्यापार की दुनिया में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हरुन इंडिया का पुरस्कार जीता है। नंदकुमार को हरुन इंडिया के शीर्ष अधिकारियों से हरुन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला।

### प्रश्न-6

केंद्र ने के. सत्यनारायण राजू को निम्नलिखित में से किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है?

- A) बैंक ऑफ इंडिया
- B) केनरा बैंक
- C) पंजाब एंड सिंध बैंक
- D) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

**सही उत्तर: B**

सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने कहा कि केंद्र सरकार ने के. सत्यनारायण राजू को तत्काल प्रभाव से अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। राजू, जो भौतिकी स्नातक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बैंकिंग और वित्त) में स्नातकोत्तर और CAIIB (सर्टिफाइड एएसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स) हैं, ने पहले 10 मार्च, 2021 से केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया था।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 15 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-7

निम्नलिखित में से किसे मित्रा का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया था?

- A) रणबीर कपूर
- B) श्रद्धा कपूर
- C) सारा अली खान
- D) अनुष्का शर्मा

**सही उत्तर: A**

फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली मित्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। कियारा आडवाणी, महिलाओं की पश्चिमी पोशाक श्रेणी के बारे में जागरूकता फैलाना जारी रखेंगी।

### प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज (INS) परभारतीय नौसेनाके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) और मिग29K लड़ाकू विमान ने सफलतापूर्वक अपने पहले लैंडिंग और टेक-ऑफ प्रयासों का प्रदर्शन किया?

- A) INS विराट
- B) INS विक्रान्त
- C) INS विक्रमादित्य
- D) INS खंडेरी

**सही उत्तर: B**

लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (नौसेना) और मिग29 K लड़ाकू विमान ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रान्त से पहली लैंडिंग और टेक-ऑफ सफलतापूर्वक किया है। भारतीय नौसेना के अनुसार , सफल लैंडिंग और टेक-ऑफ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पहल को और गति प्रदान करेगा।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 15 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-9

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में 'इंडिया एनर्जी वीक 2023' का उद्घाटन किया है?

- A) बेंगलुरु
- B) भोपाल
- C) कोलकाता
- D) मुंबई

**सही उत्तर: A**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 'इंडिया एनर्जी वीक 2023' का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2023 का आयोजन 6-8 फरवरी तक किया गया था।

### प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किस शहर में पहली यूथ20 प्रारंभिक बैठक 2023 आयोजित की गई थी?

- A) ऋषिकेश
- B) पणजी
- C) गुवाहाटी
- D) देहरादून

**सही उत्तर: C**

भारत के जी20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, यूथ20 समूह की पहली प्रारंभिक बैठक 6-8 फरवरी को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। बैठक का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी द्वारा किया गया था।